



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1975/आषाढ़ 17, 1897

No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1975/ASADHA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July 1975

No. F. 2(12)-NS/75.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Recurring Deposits) (Third Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force immediately.

2. In the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970—

(a) rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), on the expiry of the period of 5 years from the date of the first deposit, the account holder may at his option—

(i) continue to make the deposit in his account, or

(ii) avail of the facility of keeping the maturity value of the deposits that stands in his credit in the account for a further period upto a maximum of 5 years."

(b) after sub-rule (2) of rule 9, the following sub-rules shall be inserted, namely :—

“(3) The amount, inclusive of interest, payable at the end of each completed period of one year after the date of maturity, shall be as specified in Table A or Table B below, as the case may be :—

TABLE A

Amounts repayable when deposit are continued to be made after the date of maturity.

Number of completed year (s) for which deposit is continued to be made after the date of maturity	Denomination of the account				
	Rs. 5	Rs. 10	Rs. 50	Rs. 100	Rs. 500
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1 Year . . .	472.00	944.00	4720.00	9440.00	47200.00
2 Years . . .	578.50	1157.00	5785.00	11570.00	57850.00
3 Years . . .	694.50	1389.00	6945.00	13890.00	69450.00
4 Years . . .	821.00	1642.00	8210.00	16420.00	82100.00
5 Years . . .	958.65	1917.30	9586.50	19173.00	95865.00

NOTE 1.—If an account is discontinued without completing a full year, then the amount payable would be the amount shown for the previous completed year period, plus the actual amount of deposits made thereafter.

NOTE 2.—The amount payable on an account opened before 23rd July, 1974 and continued after maturity shall be in the same proportion to the values set out in the Table A as its maturity value has to an account of the same denomination opened after 23rd July, 1974.

NOTE 3.—The amounts payable on accounts of other denominations specified in rule 5 shall be proportionate to the values set out in the Table A.

TABLE B

Amounts repayable when maturity value of an account is not withdrawn after the date of maturity.

Number of completed years for which deposits are not withdrawn after the date of maturity	Denomination of the Account				
	Rs. 5	Rs. 10	Rs. 50	Rs. 100	Rs. 500
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Less than 1 year . . .	375.00	750.00	3750.00	7500.00	37500.00
1 year and above but less than 2 years	409.70	819.40	4097.00	8194.00	40970.00
2 years and above but less than 3 years	447.60	895.20	4476.00	8952.00	44760.00
3 years and above but less than 4 years	489.00	978.00	4890.00	9780.00	48900.00
4 years and above but less than 5 years	534.20	1068.40	5342.00	10684.00	53420.00
5 years . . .	583.65	1167.30	5836.50	11673.00	58365.00

NOTE 1.—The amount payable on an account opened before 23rd July, 1974 shall be in the same proportion to the values set out in the Table B as its maturity value has to an account of the same denomination opened after 23rd July, 1974.

NOTE 2.—The amount payable on account of other denominations specified in rule 5 shall be proportionate to the values set out in the Table B”.

K. N. ROW, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय
(**आर्थिक कार्य विभाग**)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 8 जुलाई, 1975

सं० एफ० 2(12)—एन० एस० / 75.— राष्ट्रपति एतद्वारा डाकघर (आवर्ती बचत) नियमावली, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को डाक घर (आवर्ती जमा) (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जाएगा ।

(2) ये तत्काल लागू होंगे ।

2. डाक घर बचत (आवर्ती जमा) नियमावली, 1970 में —

(क) नियम *4 की संख्या को बदल कर उसका उपनियम (1) बनाया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, पहली जमा की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर खातेदार स्वेच्छा से :—

(i) अपने खाते में रकम जमा करना जारी रख सकेगा, या

(ii) अपने खाते में जमा रकम के परिपक्वता मूल्य को 5 वर्ष की और अधिकतम अवधि के लिए जमा कर रखने की सुविधा प्राप्त कर सकेगा ।”

(ख) नियम 9 के उपनियम (2) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) परिपक्वता की तारीख के बाद पूरे एक वर्ष की अवधि के अन्त में ब्याज सहित देय रकम का ब्यौरा नोडि, यथा स्थिति, सारणी “क” और “ख” में दिया गया है :—

सारणी क

जब परिपक्वता की तारीख के बाद की रकमें जमा कराना जारी रखा जाए ।

पूरे किये गये वर्ष (वर्षों) की संख्या जिनमें परि- पक्वता की तारीख के बाद रकमें जमा कराना जारी रखा गया हो	खाते से जमा कराये जाने वाली किस्त की रकम				
1	2				
	5 रु०	10 रु०	50 रु०	100 रु०	500 रु०
1 वर्ष . . .	472.00	944.00	4720.00	9440.00	47200.00
2 वर्ष . . .	578.50	1157.00	5785.00	11570.00	57850.00

1	2				
	5 रु०	10 रु०	50 रु०	100 रु०	500 रु०
3 वर्ष . . .	694.50	1389.00	6945.00	13890.00	69450.00
4 वर्ष . . .	821.00	1642.00	8210.00	16420.00	82100.00
5 वर्ष . . .	958.65	1917.30	9586.50	19173.00	95865.00

टिप्पणी 1 :— यदि एक वर्ष पूरा होने से पहले खाता बन्द कर दिया जाए तो वह रकम दी जाएगी जो पिछले पूरे वर्ष के लिए निर्धारित की गयी है और इसके साथ उसके बाव जमा करायी गयी रकम भी जोड़ी जाएगी।

टिप्पणी 2 :— 23 जुलाई, 1974 से पहले खोले गये और परिपक्वता की तारीख के बाद जाी रखे गये खातों पर सारणी "क" में उसी किस्त के खाते के परिपक्वता मूल्य के अनुपात से ही रकम दी जाएगी जो 23 जुलाई, 1974 के बाद खोल गया हो।

टिप्पणी 3 :— नियम 5 में निर्दिष्ट अन्य किस्तों के खातों पर सारणी "क" में उल्लिखित मूल्यों के अनुपात से रकम दी जाएगी।

सारणी ख

जब खाते की परिपक्वता की तारीख के बाद किसी खाते का परिपक्वता मूल्य न लिया जाय उस अवस्था में देय रकम

पूरे किये गये वर्ष जिनके लिए परिपक्वता की तारीख के बाद जमा रकम वापिस न ली जाएं	खाते में जमा करायी जाने वाली किस्त की रकम				
	1	2			
	5 रु०	10 रु०	50 रु०	100 रु०	500 रु०
एक वर्ष से कम . . .	375.00	750.00	3750.00	7500.00	37500.00
एक वर्ष और इस से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम . . .	409.70	819.40	4097.00	8194.00	40970.00
दो वर्ष और इस से अधिक पर तीन वर्ष से कम . . .	447.60	895.20	4476.00	8952.00	44760.00

1	2				
	5 रु०	10 रु०	50 रु०	100 रु०	500 रु०
तीन वर्ष और इस से अधिक पर चार वर्ष से कम .	479.00	978.00	4890.00	9780.00	48,900.00
चार वर्ष और इस से अधिक पर 5 वर्ष से कम .	534.20	1068.40	5342.00	10,684.00	53,420.00
5 वर्ष .	583.65	1167.30	5836.30	11,673.00	58,365.00

टिप्पणी 1.— 23 जुलाई, 1974 से पहले खोने गये खानों के संबंध में, गारणी 3 में उल्लिखित उसी किस्त के खाते के परिपक्वता मूल्य के अनुपात में रकम दी जायगी जो 23 जुलाई, 1974 के बाद खोला गया हो।

टिप्पणी 2.— नियम 5 में निर्दिष्ट अन्य किस्मों के खातों के संबंध में गारणी 5 में उल्लिखित मूल्यों के बराबर रकम दी जाएगी।

के० एन० राव, संयुक्त सचिव।

